



OL/SE/438/Sep 2022-23

September 07, 2022

The Secretary	The Secretary	
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited	
Phiroze Jeejeebhoy Towers Limited	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,	
Dalal Street, Mumbai-400001	Bandra (E) Mumbai-400051	
Security Code: 532880	Symbol: OMAXE	
Fax No.: 022-22723121/2037/39/41/61	Fax No.: 022-2659 8237/38	

Subject: Intimation of Newspaper Publication by the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper publication of "Notice of 33rd Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure".

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website i.e. www.omaxe.com.

5 -

You are requested to take the same on your records.

Thanking You.

For OMAXE maxerizmited

retary Con

Navin Jain Company Secretary

Encl.: As above

"This is to inform that please make all correspondence with us on our Corporate Office Address only"

OMAXE LIMITED

Corporate Office: 7, Local Shopping Centre, Kalkaji, New Delhi-110019. Tel.: +91-11-41896680-85, 41893100, Fax: +91-11-41896653, 41896655, 41896799

Regd. Office: Shop No. 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon - 122 001,(Haryana) Toll Free No. 18001020064, Website: www.omaxe.com, CIN: L74899HR1989PLC051918

जनसता

7 सितंबर, 2022

कब्जा	सूचना

DCB BANK

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अभिनियम, 2002 के अंतर्गत इसिनि मेंक लिमिटेड के प्रामिकृत अभिक के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पटित भारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभोहरताभरी ने मांग सूचना उक्त अभिनियम, 2002 की भारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर कॉलम नं. 3 में वर्णित ऋणभारक/सह-ऋणभारक को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणभारक तथा सह-ऋणभारक कॉलप नं. ७ में चर्णित इस राशि को चापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणभारक, तथा आप जनता को सुचित किया जाता है कि अम्रोहस्ताक्षरी ने उक्त नियपावली के नियम 3 के साथ पटित अम्रिनियम की भारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभोहरुताक्षरी ने यहां नीचे कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्ति का कच्जा कर लिया है।

कप सं	স্থিয় আলা	ऋणआरक7सह-ऋणधारक	ा मांग सूचना तिथि	करूता की तिथि			
1.	DRBLMEE00419008 तथा DRBLMEE00524859	त्री देवेश कुमार, सुप्तान सिंह राभा पुणा कुमारी	15.6.2022	2.9.2022			
	मांग की गई राणिः रु. 10,34,072.23 ।	रिः दल लाख चौतील इजार कहत्तर एवं पैले अङ्ठाईल मात्र	,,L				
	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का णिषरणः प्राप	मगला रोर खां, पुआरएक जेनपुर, परगणा जैनपुर, राजसील	जिला मेरठ, ठचर प्रदेश -:	250002			
2.	DR BLMEE00527900 राषा DRM BM EE00436102	त्री आस पोइप्पद, सुश्री जीन्स सथा जान पोइप्पद	15.6.2022	1.9.2022			
	मांग को गई राशिः रु. ६,७२,१८६.५७ (२	চ. ন্ত: লান্দ্র হ) রসাং एক নী জিলামত एयं पैसे মন্যাথন দ	(na)				
	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का णिषरणः शॉप	में. ७, प्राम मुआरकपुर पल्हेरा, परगणा यौराला, सहसील स	रधाना, पणली रोड, मेरठ,	ठत्तर प्रदेश-25011			
3.	DRMBGHZ00436941	राजपाल सिंह एवं श्रीपती अनीता	28.9.2020	3.9.2022			
	मांग की गई राणि: रु. ३,१२,१७७.७४ (रु. आठ लाख आरू इजार एक हो सङ्गठ एवं पैहे चौराठ मात्र)						
	प्रतिमूत परिसप्पतियों का विषरणः प्यूनि गाजिमाधाद, ठत्तर प्रदेश-201204	सिपल ने. 20, खसरा ने. 950 मी का भाग, ग्राम उखलरसे	िल्लागी कॉलोनी, गंगा कि	गर पुरादनगर			
य.	DRM BGHZ00441 294 राषा DRBLGHZ00517812	औ सोरन कुमार एवं औमती ऑमी	16.4.2022	3.9.2022			
	मांग की गई राणिः रु. 975,344.237-	(रु. नौ लाख पचडतर इजार तीन सौ चौआलिस एवं पैसे उ	स्ट्ठाईरा मात्र)				
		रा नं. ५५४ का भाग, मोहल्ला रात्यलोक आश्रम मुरादनगर '	परगणा, जलालामाद राहसी	ल मोदीनगर,			
	गाजियाधाद, ठत्तर प्रदेश-201006						

বিথি:	7.9.2022	

varthana

रखानः मेरठ तथा गाजियाबाद

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में मै. विरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लि. के रूप में अभिवास)

पंजी, कार्यसपः मां इनीची-110. पश्चवित, पूर्वाय यस, नारुव लि येव, प्रविंध येव, पुराव यंव, एकवारवेवार सेवायत, करवन नगर, मैंससोर-500013. वेनव्यस्ट: www.varihana.com, ब्री-नेस care@varihana.com, यूरपन मां: 000-0060777. यात्रा कार्यसप पुना झॅंग्रेनियन यूनिट मां.5. सपूर्य यस वेच प्राय के निकट, संगीलक संबद्ध खारे जीएकपुर-143833

माग सूचना

प्रतिभूपि दिय प्रवर्ण और प्राण पहली विति-प्रवरण पर्व विविध प्राण्यान (पंखेषन) औरनियन 2018 (2018 का 44) प्राय पंखेलियानुषार और उसके पार प्रतिमुधि दिय (अवर्धन) (वंदोबन) निवनारमी 2016 झाव चंदोनिवानुवार किर्वाव परिवंतरिवर्वों के प्रवित्तुविकरन स्वं प्रतनिर्मन वना अवनुवि दिय अवर्धन वनिनियन 2002 की बाब 19 की चप-बाब (2) के संदर्भय चुलना।

डन् में तर्स वर्षमा प्रभइ में त्र प्रदेश दिविष्टिङ (तकिंपतता को भयान में रखते हुए यहां इतमें इतके उपरांत दि करंपनी को रूप में संदर्भित तबा पूर्वमें से बिरुमेनी प्रभइ में स দা হৈ, ক' লগ দ অমিয়ান) জা ই বা एক গঁং–শ্বিদিণ বিধে ক'গৰী ই, জা ক'গৰী অমিৰিগণ ৫৯৪০ ক' অনৰ্গন বিশৰিত নৰা সাধায়ি ফৈৰ্ব ৰক বাৰ ঘঁজীকুন ই, আঁং जिसका पंजीकृत कार्यालय उपयर पते में बर्मितानुसार में ग्लोर में डें ऑर इसकी अनेक में से एक बाका जो डेंबो संडीगढ (यहां इसमें इसके उपसंत बाका के रूप में নাৰ্বশিৱ) দ হিৰৱ উ, হৰবুৱায় আৰবক / মত-আৰবকাঁ আঁহ কাৰককৰোঁআঁ ক' তথা দ বিশ্বদান আঘকা মহফাহমি আমিৰিওণ 2002 কী মায় 13(2) ক অৱৰ্গন বিশ্ববিষ্ঠিন राचना निर्गत करते हैं, जो बकावा देवराशियों की बरासी के लिए हैं। दिनांक 28.07.2022 को निर्गत नांग राचना की विवयवरतु जो है उसे प्रतिभूति डित (प्रवर्तन) नियमाक्सी 2002 के निवन 3(1) के ताथ प्रदित अभिनियन की भार 13(2) के अनुतार, आवेदकों / तड–आवेदकों / कंशककर्ताओं तो. 1 ते इ.पर, को तुत्तना की तेवा के लिए, वेकल्पिक तेवा के माध्यम के रूप में उन्ने इसके साम प्रकाशित किया जा रहा है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे प्रत प्रकाश में प्रेयम के उपसंत भी प्रेयित स्वनाएं उस्टेखित क्यों कर नहीं कहुंच सकी बीं/बड़ांकर उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका बा।

आपने विद्यालय यानी स्कूल के लिए करण युक्तिमा प्रभ्य करने डेतुडम 8 संझीपढ शाखा से संपर्क किया थाओं र तदनुसार डर्मे एक आ वेदन दिया था। कंपनी ने आपके अनुरोध पर विकार कर आपको इटन राविधा प्रधान भी कर दी थी. जिसके विवरण निभ्वानुसार दिए गए हें-

त्राण स्वाता सं, S19CHA-CHA-007092 एवं U20CHA-CHA-014834, संस्थीकृत त्राप राखिः रु. 22,18,432/- एवं रु. 2,44,000/-, कृत देववा दिवांक 25.07.2022 के बनुवाद क. 22.61.115/- (स्वय में) संविद्यलक दर के सान), सावेदक, सह-सावेदकों तथा रांडकवर्ताओं का जन एवं पताः 1) नैसर्व नीता परितक स्कुत इसके प्रविकृत रस्तावरकर्ता खरा समिवेदिरा. 2) मैसर्स एनमें मीता एयुकेषन सोसाइटी. इसके प्रविकृत रस्तावरकर्ता खरा समिवेदिरा. सं. 1 एवं 2 का कार्यांकय यो है वह बार्ड सं. 7. घर्षेय, कलाज, जनपद-सरियणा 192114 में स्नित है. 9) संजय कुनार पुत्र जंत संसदुर सिंह. 4) समिता पत्नी संजय कुनार, मं. 3 एवं 4 निवासी नकान संख्या 124. वर्ष सं. 7. सेंट्रल बेंक वाली नली. घरीब. करनाल जनवर, सरियान-182114. 5) प्रेमज राज पत्र सजबेर सिंह, नवान संख्या 88. वर्ष सं. 14. नेन बाजार, प्रसंदा, करनात जनवर, सस्याण-182114

varthana (पूर्व का मैससं थिरुमेनी फाइनेंस प्राहवेट लिमिटेड) र्षजीकृत कार्यालय : तंबर ऽबीसी-110, वरसिद्धि, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एवआरबीआर लेआरट, कल्याण नगर, बैंगलोर-560043 वेजसाइट www.varthana.com, ई-पेल :care@varthana.com, फोन: 090-694.55777, शाखा कार्यालय : सुषमा इतफिनियम, यूनिट ते ५, 4था तल निकट बेस्ट प्राइस चण्डीगढ़, अम्बाला हाईवे, जिस्कपुर-140603

वर्थना फाइनेस प्राइवेट लिमिटेड

मांग सूचना

प्रसिपृति हित फ़ार्वन द्वारा यथासंशोषित वितीय आस्तियों के प्रसिपृतिकरण एवं पुनर्मिर्माण तथा प्रसिपृति हित फ़ार्तन अधिनियम्, 2002 की घारा 13 की ठपघारा (2, एवं ज्रह्मा वसूली कानुनों तथा मिश्रित प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) तथा आगे संशोधित प्रतिपृति हित (प्रकर्तन) (संशोधन) नियम, 2016 के तझ्त सुचना।

इम, मैसर्स वर्थना कहनेंस प्रहवेट लिमिटेड (इसके आद सॉक्सिसा के लिए कंपनी के रूप में संदर्भित और पूर्व के मैसर्स थिरुपेनी कहनेंस प्रहवेट लिमिटेड) कंप अधिनियम 1956 के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्र कंपनी निगमित हैं और भारतीय रिक्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय अंगलौर में उपरोक्त पते i ठल्लिखित है, और चण्डीगढ़ में इसकी एक शाखा (इसके बाद ''शाखा'' के रूप में संदर्भित) है, एतदुवारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की घास 13(2) के तहत आपके आवेदक/सह-आवेदक और अंधककर्ता होने के नाते अकाया राशि की वसूनी के लिए निप्नलिखित नोटिस जारी करते हैं। चुंकि प्रदत पते पर सूचनाएँ तापील नहीं ह सकी अतः प्रतिपृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित नियम 3(1) की बारा 13(2) के अनुसार सुचना की तामील के लिए आवेदकासह - आवेदकार्यक्रकर . सं. 1, 2 और 5 को बैकल्पिक वापील के पाच्यप से दिनांक 25.07.2022 को नारी पांग सूचना की विषय -वस्तु यहां प्रकाशित की ना रही है।

आपने रकुल के लिए क्रेडिट सुविधा के लिए इमारी चण्डीगढ़ शाखा से संपर्क किया था और तदनुसार एक आवेदन किया था। कंपनी ने आपके अनुरोध पर विचार किय और ठसे मंजुरी दी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

ज्यग खाला संख्याः सं. S19CHA-CHA-006897, S18CHA-CHA-004014, U20CHA-015164 और U21CHA-CHA-018791, स्वीकृत ज्यग सशि रु. 29,99,699/-, रु. 40,00,000/-, रु. 6,83,000/- और रु. 7,65,000/-, 25-07-2022 को कुल देयताः रु. 96,78,659/- (संविद्य व्यान दर के साथ), आवेदक राह - आवेदक और डांक्ककर्ता के नाम और फो: 1) मैसर्स माउंट रकुल, इसके अधिकृत इस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) मैसर्स द राहन ऑफ सिखम माइनॉरिट एजुकेशन सोसाइटी, इसके अधिकृत इस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रसिमिषित्व, नंधार १ और २ का कार्यालय गांव और पोस्ट सुरसिया सिरसा, इरियाणा - 125201 में, ३) दौदार रिग्रंह, पुत्र अमरीक सिंह, ४) कुलक्विंदर कौर, परनी दीदार सिंह, नंबर ३ और ४, पकान नंबर ४५, रालवंडी अकल्ला प्राम सरदूलगढ़, राहसील मानसा, बिला : मानस 151505 के निजासी, 5.) गुरबेऊंस सिंह, पुत्र बहल सिंह, प्राप सुरतिया, सुरसिया (168.) सिरसा, हरियाणा 125201

आप नं. 1 से 5 आवेदकाराह - आवेदकार्थकाककर्ता हैं जिन्होंने उक्त क्रगा अनुबंध के तहत देय अकामा और देय राशि के पुनर्पुगतान को प्रतिपुत करने के लिए कंपनी वे पक्ष में आवश्यक प्रतिपुत दरतावेनों को निष्पादित किया है।

कंपनी के प्रबंधक) संग्रहण प्रबंधक और अन्य अधिकारियों ने आप सभी से बकाया राशि का पुगतान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आपको समय-समय प आर आर अनुरोध किया है कि खाता गैर निष्पादित संपत्ति न अने, लेकिन आप जानवुड़ाकर और अनुष्तित रूप से पुगतान करने में विफल रहे और असंख्य अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया और परिणामस्वरूप, उपर्युक्त खारो को 13.06.2022 को गैर -निष्पदित परिसंपत्ति के रूप में वर्णीकृत किया गया है।

बांबळकर्ता द्वारा विषिक्त निष्पदित दरतावेजों के आबार पर, कंपनी के पक्ष में नीचे ठल्लिखित प्रतिपृति पर प्रपार बनाया गया है। कंपनी एतद्वारा आप लगी को सुचित कारती है कि, वितीय आरितयों के प्रतिपृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रति प्रति कित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 1. की उप-धारा (13) के तहत, आफ्को इस सुचना की प्राप्त के बाद दिछी, फुट्टे या अन्यथा कंपनी की पूर्व लिखिस सहमति के दिना, नीचे दी गई किसी भी प्रतिषुत संपति में तीसरे पक्ष के हित को छिन्नी, पहुं के पाष्यम से स्थानांतरित करने से अचना होगा। प्रतिपूत आरितयों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदकासह आवेदक और अंधककर्ता का ब्यान धारा 13 की ठप- धारा (3) की और आकर्षित किया जाता है।

ठपरोक को ब्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम की धारा 13 की ठप-धारा (2) के तहत यह नोटिस जारी करती है और आप सभी से 25.07.2022 क रु. १६,७३,८३२/ - (रुपये छियानडो लाख अठहत्तर हजार छः सौ उनसठ पात्र) तथा २८,०७,२०२२ से ब्यान के साथ, भुगतान की तारीख तक सहमत संविदात्मक ब्यान <u>दर के साथ, आकरिमक व्यय, लागत और अन्य मुल्कों के साथ इस नोटिस की प्राप्त के 60 दिनों के पीतर का पुगरान करने का आहान करती है जिसमें विफल होने</u> पर कंपनी अधिनियम की घारा 13 की ठप-घारा (4) में परिक्रस्पिक अटैन करने, क्षेत्रने औथ या राणी कार्यवाहियों करने के लिए वाष्य होगी और/या किसी आप सर्प के विरुद्ध सक्षप न्यायालय/प्राषिकरण के समक्ष अन्य कानूनी कार्यवाही अपनाने के लिए आध्य होगी।

यदि आपको इस नोटिस के जवाब में कोई अभ्यावेदन देना है, तो कुपया ठसे अक्कित अक्किसी, द वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिपिटेड, नंबर 5वीसी-110, वरसिद्धि, तीसरी मंक्रिल, आइरी रिंग रोड, संबिंस रोड, उसरा ब्लॉक, एनआरबीआर लेआठड, कल्याण नगर, बैंगलोर -560043 को मर्क करें ताकि इम समय पर प्रसिक्रिया देने में समय हो सकें। रूपमा ध्यान दें कि यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति या स्थान को संबोधित किया जाता है से इस नोटिस के जवाब में किए पए किसी भी अभ्यावेदन का जवाब नही देने के लिए इम जिम्मेदार नहीं होंगे।

अवल संपति का विवरण: खेवरा नंबर ७३५/११४७ मुखा नंबर ८३ किला नंबर १५ (७-१०) किला नंबर २५ मिनट (०-१९), २५ मिन का रामरत माण, पूर्व व.२५, पश्चिम ४.२५, उत्तर ३९ दक्षिण ३९, ९ कनाल ९ मरला इंतकल नं. ७१०६ और खेवट नं ७३५ मिन/११६७ मिन, मुरबा नं. ९३ किला नं. १६ (७-१२) ७ कनाल १२ मरल इंतकल में 7111 कुल क्षेत्रफल 16 कमाल 0 मरला गांव सुरीता तहसील कालांवाली जिला सिरसा में स्थित और सीमाएं, पूर्व द्वाराः कृषि रंजीत की भूमि, पश्चिम द्वाराः रंग रिंह की कृषि भूमि, उत्तर द्वाराः सड़क, दक्षिण द्वाराः मुरक्षेहंत सिंह की कृषि भूमि।

दिनांकः ०७.०९.२०२२, स्थानः चण्डीमङ

हस्ता./-

प्राधिकत अधिकारी

अधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राहवेट लिपिटेड

रयर एसट राकस्टक्शन ।लामटड

पंजीकत कार्यालय : 104–106, गाला अर्गौस, निकट हरकुमां टॉबर, गुजरात कॉलेज रोड, अहमदाबाद-380006, दूरभाष : 079 4009 2295

बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ७(८) एवं ७(१) के प्रावभान के साथ पटित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अभिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सुचना



For Technofab	Engineering	Limited
	Aru	n Sinah

आ पता ते लेकर 5 तक जो आधेदक∕तड–आ धेदक∕बभककतोगण डे उन्होंने उक्त करण अनुबभ के अतर्गत ककाया एव भुगतानयोग्य देयशशियों के प्रतिभुगतान को प्रतिभूत करने के लिए कवनी के वस ने अनिवार्य प्रतिभूतिनूलक प्रलेखों का निम्वाटन किया है।

प्रवयक∕ सरहकतां प्रवयक और क्रमनी के अन्य अधिकारियों ने वारवार आग सभी से अनुरोध किया था कि वकाया राशि का भुगतान कर दे और यह सुनिष्टियत करे कि स्प्राता जो डें का अनिश्वादनीय परितपश्चित न बनने पाए परंतु आपने इथ्छापूर्वक यानी जानबूझकर और अभ्यायपूर्ण तरीके ते भुगतान करने वे यूक कर दी डे और तक्य—तक्य पर आपने किए गए अनेक अनुरोधों पर आपने ध्यान नहीं दिया और इनको परिणाकरवला उत्पर—यर्थित करण आता जो डे कड 14 07 2022 को अभिव्याद्रभीय वरितवस्ति के सब ने वर्गीकत कर दिया गया है।

बधककर्ताओं हारा विधिवत ढंग से मिन्दादित प्रलेखों को आधार पर मिश्म वर्णित प्रतिभूतियों पर कपनी को पक्ष ने शुरुक सुक्तित किया गया हैं | अत एतदहारा कपनी আৰ মন্দ্ৰী কৰা বিজ্ঞান বাইমেৰজিকা কা মনিশুনিকংশ হৰ বুৰ্শিৰ্শণ নথা মনিশুনি ভিন স্বৰ্ধন অভিদিশৰ 2002 বিষ্ণা হম è হম কা বৰণান অভিদিশৰ কা তৰ è तदर्भित) की भाषा 13 की उप-भाषा [13] के अतर्गत तुवित करती है कि आप इत तुबना की प्राप्ति के उपशत कपनी की पूर्व लिखिल तहनति के विनानिम वर्णित प्रतिभत परितपरितयों ने ते किसी भी परितपरित को विकय पठटा के नम्प्यन से अथवा अभ्यमा इस्तात हु। नहीं कर सकेने और न ही इसने किसी ततीय प्रस्त का डित स्त्रित का स्वोगे | अधेदको ∕ सड–अधेदको और अध्यककर्ताओं का ध्यानाकर्मण प्रतिभुत परिषयक्तियों के पोयनार्थ उपलब्ध समय को सदर्भ में धारा 13 વી ૩વ—પારા દે! વધી ઓર આવત્રિત વિત્યા ગાતા કે!

उपशेक्त को दुन्टिगत रखते हुए कपनी एतदहारा अभिनेयन की भारा 13 की उप—भारा [2] के अतर्गत कड त्यना निर्गत करती डे और आपको निर्देश देती डे कि आप इस सुयन। की प्रभिन्न की तिथि से 60 दिवसों के अदर दिनाक - 25072022 के अनुसार न 2205101154 (नपर बाईस लाख इकसठ इनार एक सो पढड भात्र) की एक कुल राशि का भूगतान की तिथि तक व्याज की तकिदल्पक दर के ताथ 2501 2022 ते व्याज आकरिषक व्यथो लागत और अथ प्रभारो के ताथ भुगतान कर दे। ऐसा करने में विकल स्डने पर कवनी जो डे वड अधिनियन की धारा 13 की उप-धारा (4) में वल्लिकिसानुसार सपलि की कुर्की विक्री करने तथा/ अथवा समस्य कार्रवाइया करने के लिए मध्य-विवस डोनी तथा/ अधवा संसम प्यायालय/ प्राधिकरण के समस्र आप सभी के विरुद्ध किसी अभ्य विधिक कार्रवाई को प्रारम करेनी ।

यदि आपको द्वारा इस सूचना को प्रस्कुलार ने कोई अभिवेदन दिया जाना है तो कुपया वह अभिवेदन प्राधिकृत अधिकार्ध नेस संकला काइनेस प्रा लि। स इबीसी—110 'यश सिद्धि' त्रतीय तल आउटर हिंग रोड सर्वित रोड एवआरबीआर लेआउट तृतीय प्लॉक कल्यान नगर बैंगलोर-560043 को सर्वोधित करते हुए उनके सनक प्रस्तुत करे ताकि डग समय पर प्रतिक्रिया देने में समर्थ डो सकी क्रुपया नोट करे कि डग इस सूचना की प्रतिक्रिया में दिए गए किसी अभिवेदन पर उस स्थिति में प्रतिक्रिया ज्यक्त करने के लिए उल्तरदायी नडी डोने यदि वड यानी अभिवेदन किसी अभ्य ज्यक्ति अध्यया त्यान को सर्वोधित किया जाता है।

स्वयन संपरितयों में विवरण, अनुगुर्य एं सर्वालेंत संवलित को संवरत का भाग तथा अल जो खेकर स 1350 किस्ती 2 स्वर्ग्ध 02 कमाल 16 वारला कुल स्वर्थ [ट कनशल 16 मारला) तथा मुख्यान 160 किलान 7 रकवाट कनशल ० मारलाएव मुख्यान 160 किलान 6/ट बेरट 16 मारला जो धरौटा तडरीलि धरौटा एव जनवट करनाल हरियाण्या में रियत और इस प्रकार वरिसीमित हैं पूर्य— ईशर दास कुमि भूमि वश्चिम— सरता उल्तर— ईशर दास कुमि भूमि दक्षिण— स्मेश વ્યુગિપૃષિ હ્ય અ∗ચ∣ અમુવ્યુથી 'થી' સવરિત સવરિત વરંતવકપાળ તથા અરાઝો હસ પ્રચાદ∕પૃષિ સે સવદ્ય કે ઝો એવટ સ ટાર મુરબ્ધા સ કર વિજ્ઞાસ r∕1 (4—15) 6∕2 (5—12) किलो श्वरथा5 कनाला7 मारला में समाविल्ट और मालकपुर प्राम भरौदा तडसीला करनाला जनपद डरियामा में स्थित और इस प्रकार परितीमित डे पूर्व-ईशः दात कृभि भूमि पश्चिम- सरता उल्तः-ईशः दात कृभि भूमि दक्षिण- स्पंतः कृभि भूमि एव अभ्य।

दिमांगः 07.08.2022. स्थानः चंदीनव

अविकृत वविकारी, क्येंग पाइनेंच प्राइवेट लिनिटेड

शिवालिक स्माल फाइनेस बैंक लिमिटेड

मंजीयुरु कार्कलय : 501. ईल्प्रन औरम, जहोसा विहित्यर हेंटर, कई दिल्ली-110025

ची अव्हेरन : U&5900DL2020PLC368027

www.readwhere.com

पोरिशिष्ट 🗤 [नियम ४ १) देखें] कब्बा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोकलाधती ने अति गुति फिल अधिनियम, 2002 की विजीम अगितमों तथा प्रवर्तन के अति गुतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''सर्वेत्वणी अधिनियम'') तथा अति गुति फित (अवर्तन) नियम 2002 के निमम 3 के साथ भटित थारु 13(12) के तकर भटत सकियों के उपनोग में बीकिंग विस्थिम अधिनियम, 1949 के अर्थों में सिवासिक स्थाल भएतों से बैंक लिम्ट्रिड बीकिंग कम्पनी, पंजीकर प्ला 301, सैल्कन औरम, जसेला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, न्हूं दिल्ली-110025 तथा मुख्य कर्मालम 6टी मंजिल, टॉवर-3, इंडिमा ग्लाइकॉलर बिल्डिंग, प्लंट में 2थी, सेवटर 126. गेएडा-201304 का अधिकृत अधिकाते होने के नते कर्जकाओं परे कथित माँग एकम की अपित की तिति से 60 दिनें के भीतर एकम में उस्तिद्धित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग एचना जाते की थी।

निम्नलिखिर कर्मचर/रो/जपारती/मो/बंधककर्त के राशि के पुरर्भुगतार में आपकत सेने के कारण, कर्वच/४रो/वपास्ती/मों/बंधककर्ता तथा वनग्रापान्म को एतद्वारा एचना के जती 🖡 कि कथित रिमर्पो के निमम 3 के एगड अटित कडित अधिरिमम की धारा 13(4) के तकत उसे प्रदल लकिमों के उभमेग में अधीक एताधती ने नीचे वर्षित सम्पत्तिमों पर सांकेतिक कल्ला कर लिम है।

इति कु अतिमें को विभोषित करने के लिए उपलब्ध समम-सीम के अतिश्म में कर्जवते का ध्यान अधिनिमम की धात 13 की उपधात (3) के आवधानें की ओर अवस्ट किया जाला है।

नेचे उल्लिह्यित कर्मका/जे/जयनती/मो/संधककर्ता के विशेष रूप हे एवं जनसायन्य को एष्यतियों के साथ कोई एंव्यवस्थर न करने की चेतावनी के जाती है और सम्पत्तिमें के साथ किसी भवार का संस्थवार अनुबन्ध दर पर गवी ज्यज एवं भ्रतित्थापित ज्याज, आकस्थिक व्यर्भे, लगती तता प्रभारी आदि स्क्रित त्रिवलिक स्वल प्राइनेंस बैंक लिप्टिड के प्रभार क विषय चेगा।

विषय होगा।			प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निय, 2002 के नियम ४(४) एवं ९(१) के तहत वैधानिक 30 दिनों की खिक्री सूचना	के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, को केवल कट-ऑफ तिथि के अनुसार रिमोट ई-योटिंग की सुविधा
कर्जदात् रों)/जमानती(यों)/ अंधककर्ता(ओं) का नाम	अचल सम्पत्तियों का प्रावरण	मोंग सुचान की तिथि तथा राशि कब्बन सुचना की तिथि एवं छाता संरूथा	कर्मदार/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्ववरा प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए अचल प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के लिए अधिसूचित	का लाभ उठाने और बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा।
		-	किया जाता है तिथि : 06.09.2022 ह./-, अधिकृत अधिकारी,	ई-योटिंग की अयधि रयियार, 25 सितबर, 2022 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) शुरू और मगलयार, 27 सितबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)समाप्त होती है। इसके बाद योटिंग के लिए लिक
1. कुष्ण पंद पिश्रा पुत्र रुप कुपार (कर्तवर) पिवाझे ग्राप	आवासीम भूछांड माम 30 वर्ग गज का इविवटेशल बंधक, छाएस फेस्ट 477, ग्राम छोटपुर, तहासेल खदते, जिला गौतमबुद्धनगर में		ताथ : 08.09.2022 रथानः अहमदाबाद रेयर एसेट रीकेस्ट्रक्शन लिमिटेड	इनटाइम इडिया प्राइयेट लिमिटेड द्वारा ई-योटिंग मॉड्यूल को निक्रिय कर दिया जाएगा। एक बार
छेटपुर, कराबेल ठाटते, जो.वो, नगर-201307, 2, श्रोमके उथा पिश्रा पत्नों श्रों कृष्ण पंट पिश्रा (गार्रटर,६१४ककर्क)	रिश्वर, उप पंजीपक क्क मेएछ के उजरूव अपिलेखों में बहा में 1.		נער פער עערקעניז ורווזרפא	किसी सकल्प पर शेयखारक द्वारा योट दे दिए जाने के बाद, शेय खारको को बाद मे इसे बदलने की
जना गिजा परना जा कृष्ण रह गिजा (मारट(शावकाका)) नियासी डब्ल्पूजेड एम20, स्पाप पार्क नयात्र, पोहन गार्डन	बिला में - 2196, पृष्ठ एडिमा - 255 ऐ 268, क्रमांक - 7583 दिनांक			अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-योटिंग के माध्यम से अपना योट डाला हो, ये
पश्चिम दिल्लो 110059 3. श्री अजम पाल पृष्ठ श्री बेचे ताल	11.11.2005 के रूप में पंजीकृत, श्रोपको उमा देवी पत्नी श्री		मैगनानीमस ट्रेड एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	यीसी/ओएयीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते है, लेकिन उन्हे एजीएम के दौरान
(गार्टर) निवासी- पकान र. 103. ग्लो न. 2. छोटपुर.	कृष्णागंद पिश्रा के नाम पर। अवल एपिति / एपिति / एपिति कौ एमेमाः पूर्वः प्लॉट डोगर. पश्चिमः प्लॉट डोगर. उत्तरः प्लॉट डोगर.	**** 101940510045 4 1375		ई-योटिंग सुयिशा के मध्यम से अपना योट दोआरा डालने की अनुमरि नही दी जाएगी।
बन्हलोलपुर -3. मोएझ प्रेक्टर -63. जो.बो. मगर -201301.	वध्यः राज		पंजीकृत कार्यालयः डी−1, मोती लाल अटल रोड, प्रथम तल होटल नीलम के पीछे, जयपुर–302001	कोई भी ध्यक्ति, जो कपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेथण के बाद कपनी का
। श्री भय सिंह प्राइ डिप्पन सिंह (कर्मनर) निवासी - प्रकार	एमहि पाप 🖄 वर्ग गत्र का इंक्विटेशन बंधक, छाररा मंबर- ४२४	प्राग प्रचर को तिहि : 21.05 2022	(राजस्थान) सीआईएन: L65923RJ1991PLC059251 टेली: (0141) 2373164, 2373364	सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 21 सितबर, 2022 के अनुसार रोयर धारण करता है, instameet@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पास वर्ड
र्गवार एक 101. व्रिजारणे, प्रेक्टर 63. जंगल प्रेमेंट एवँग्रो	और 495, ग्राम छिजारांगे, जो,बो, नगर में दिश्वक, उप पंजीपक	कब्स एवन को तिथि : 02,0%2022.	ई—मेल आईडी: co@mtfl.co.in वेबसाइट: www.mtfl.co.in	प्राप्त कर सकता है या 022-49186175 पर संपर्क करे।
			37 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई—वोटिंग और बुक क्लोजर पर सूचना	इलेक्ट्रॉनिक योटिंग की प्रक्रिया के लिए कृपया ई–योटिंग के लिए विखत निर्देश देखे, जो आपके
	पेज नंबर - 249 ऐ 262. क्रमोक - 3767 दिनोक 30.07.2013 में पंजीकुर, राधा देवी पत्नी औ भूप ऐरोड़ के नाम पर। अवल		सूचना यहां दी गई मैगनानीमस ट्रेड एण्ड फाइनेंस लिमिटेड ('कंपनी') की 36वीं वार्षिक आम बैठक	मतदान अधिकार का प्रयोग करने से पहले 33 'यार्षिक आम बैठक' की सूचना का हिरसा है। किसी भी
	एमति/रापति को सोमाए: पूर्व: पूरम प्रमां का भूछड. पश्चिम: 10 फोट		(एजीएम) बुहस्पतिवार 29 सितंबर 2022 को सुबह 11:00 बजे से होगी, कंपनी के पंजीकृत कार्यालयः डी–1,	प्रश्न के मामले मे, आप अक्सर पूछे जाने याले प्रश्नो (एफएक्यू) को देख सकते है। वेवसाइट
दल्लरक्ष भगत (गाईटर) निवाफ्री गाँव - बिलनपुरा, ऐक्टर-58,		101 946S 1003S के घिरद्ध	मोती लाल अटल रोड, प्रथम तल होटल नीलम के पीछे, जयपुर–302001 (राजस्थान) में एजीएम के नोटिस में	https://instameet.linkintime.co.in पर हेल्प एड एफएक्यू सेक्शन के तहत उपलब्ध सदस्यो
जो.जो मगर, उ.प. 201301			दिए गए व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए जो कुपनी की वार्षिक रिपोट के लिए एक साथ है, 31 मार्च 2022 को	के लिए सदस्य और ई-योटिंग यूजर मैनुअल या आप 022-49186175 पर या निर्दिभ्ट ई-मेल आईडी पर सपर्क कर सकते है। जो इलेक्ट्रॉनिक योटिंग से सबधित शिकायतो का समाधान करेगा। सदस्य
	एंपति छारत रहिमाः १८८ पिन पर दिश्वत एम्पति का इवियटेवल		समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है जिन्होंने डिपॉजिटरी/कंपनी और	कपनी सचिव को investors@omaxe.com पर भी लिख सकते हैं।
	बधक, पाप 53 वर्ग गज, एटरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर कार्यालम		भौतिक मोड में अन्य सदस्यों के साथ अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत की है।	जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पजीकृत नहीं की है, उनसे
	उप पंजीपक गोएडा, बन्ने ४,1, जिल्ह ४,- 5870, पीजो ४,- 45/82, ज्ञ.ए2229 दिर्गाक 01-03-2014 को श्रीपनी जाहित्र के		कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 108 , कंपनी (नियम और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के नियम 20 के	ाजन सदस्या न ाठपा।जटरा प्रारामा।गया क साथ अपना इमल आइठा प्रजाकृत नहा का ह, उनस इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित रोयरों के सबध में और भौतिक रूप में धारित रोयरों के सबध में अपने
ऐक्टर - 4S. मेएछ. गीतम बोद्ध नगर. उत्तर प्रदेश. 201301.	गण से पंजीकृत। अवल संपति / संपति / संपति को स्रोपाएः पूर्वः	रु. 17.00.000/· (रुपमे एउन्ह लाख	प्रवधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियम ४४ के प्रावधानों (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और	डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है।
	11 फोट एडक, पश्चिमः 10 फोट एडक, उत्तरः किएँ अन्य व्यक्ति		प्रकटीकरण) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 कंपनी एजीएम में लेडदेन किए जाने वाले	हमारे आरटीए के लिए कैंध ईमेल आईडी delhi@linkintime.co.in या
निवासी - ग्राम - एडरपुर कॉलोगे, ऐक्टर - 45, गेएडा, गैतम औड नगर, उत्तर प्रदेश, 201301, 4, मेहम्पद मामेन		101941000533 कथा 101940510007 के विरुद्ध	व्यवसायों के संबंध में केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से सदस्यों को दूरस्थ	investors@omaxe.com पर ईमेल फ्ता, मोबाइल नवर, रच-सरयाफित पैन प्रति और रोयर प्रमाणपत्र की प्रती प्रवान करने वाले अनुरोध पत्र की इस्ताक्षरित स्क्रैन प्रति के साथ। जिन सदस्यो ने
छान पुत्र अजीज (गार्टटर) निवाफ्री - ग्राम - सदरपुर			ई—वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके को एजीएम के नोटिस में नोट किया गया है।	अनामजन का अंत अंधान करने पाल अनुराय जन का इत्याताररा रकने आर्च के तावना जन तपरचा न अपना ई –मेल फ्ता, मोब्राइल नवर, डाक फ्ता और बैंक खाता यियरण प्रजीकृत किया है, उनसे अनुरोध
कतिनेने, ऐक्टर- 45, नोएडा, गौतम अद्भ नगर, उ.९.,			रिमोट ई—वोटिंग सोमवार 26 सितंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे आईएसटी से शुरू होगी सोमवार 28	है कि इले क्ट्रॉनिक मोड मे शेयर के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट से सपर्क करके या हमारे
201301			सितंबर, 2021शाम 05:00 बजे आईएसटी समाप्त होगा।	आरटीए लिंक इनटाइम इडिया प्राइपेट लिमिटेट से संपर्क करके अपने पंजीकृत विवरण को
	एंपहि पाप 30 वर्ष गज का इकिवटेबल बंधक, छारस मंबर- 70. उपम-एज्जेक मगर, परगमा लोगो, जिला गजिपाबाद में दिश्वत बज्जे			मान्य / अपडेट करे।
	र्गतर -1. जिल्ह रंबर -1143. पेज नंबर - 01 हो 04. होरिपल		कंपनी के सदस्य, फिजिकल या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखते हैं, जैसे कि कट—ऑफ दिनांक यानी 22 सितंबर, 2022 को दूरस्थ ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल सकते हैं।	सदस्य एजीएम में यीसी / ओएवीएम ले मध्यम से https:// instameet.linkintime.co.in/ पर
	रंगर: 4136. दिगंक 17.05.2000 के राजाव रिकॉर्ड में पंजोक्त.		कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों को प्राप्त करता है और एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी सदस्य बन	अपने रिमोट ई-योटिंग लॉगिन क्रेडेशियल का उपयोग करके और कपनी की एजीएम के लिए इयेट का ययन करके भाग ले सकते है। जिन सदस्यों के पास ई योटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड
र्षांठ फाटक, सामने हिठ मंडिर, गाजिमाबाद, उ.प्र.	प्रेम होकर पुत्र औ रुम विकाए पेओ के नाम पर। अवल एमहि / एमहि / एमित को एमेगः पूर्वः प्लॉट विक्रेता, पश्चिमः विक्रेता छरोठर		काइ मा व्यक्त जा कंपना के रायरा का प्राप्त करता हु आर एजाएम के नाटस मजन के बाद कंपना सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ दिनांक के अनुसार शेयरों को रखता है यानी 22 सितंबर, 2022 तक रिमोट ई—वोटिंग के	नही है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए है, ये नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–योटिंग निर्देशो
	का प्लाह 7 लगा लगा पुंचा प्लाह विक्रमा, पाइया विक्रमा छ तरा का प्लाह, उत्तर: आन्य पालिक प्लाह, दक्षिण: 13 फोट कच्छा राजा	Side of Torse lose out of torige	लिए लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सेकता है। helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या	का पालन करके इसे पुन प्राप्त कर सकते है।
			co@mtfl.co.in पर अन्रोध भेजकर।	जिन सदस्यों को एजीएन से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आयश्यकता है, ये
1. औ राजू (कर्नवर) निवाफ्री - पकार न. 15. ग्राप-	150 वर्ग गज पात्रो. 125 A वर्ग पोटर के एपति माप का इक्विटेबल	पाग सूचना को मिथि : 21.0S2022 कवजा		https://instameet.linkintime.co.in पर आश्टीए से सपर्ल कर सकते है।
अतिवरपुर तन्नाप्रेल- दादरी, मीएडा, जो,बो गगर उ.प्र.	बंधक, छारत वंबर 349, ग्राम- प्यावली ताजपुर, तहरोल- टाटरी जो.बी. मगर मुगी. बही में-1. जिल्ह में- 3097, पृष्ठ रहिमा-15 से	एडना को तिहि : 02,0%2022.	रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को 28 सितंबर, 2022 को शाम 5 बजे सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वोटिंग पत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों का उपलब्ध कराई	यीसी ∕ ओएयीएम के माध्यम से एजीएम मे शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धास्ति समय से
201311. 2. श्रीपती रहीस पत्नी उजुचेन (गार्टटर/बंधककर्म) नियासी प्यायली ताजपुर, तहसेल	30. क्रमॉक 105. दिनॉक 06.01.2011 के उजराय अभिलेखों में	बकामा हाहाः २. ४.१०,०००/ । त्यमे चार ताख रजी	वाटिंग पत्र के मोध्यम से वाटिंग को सुविधा एजाएन में आर एजाएन में मांग लेन वाल सदस्यों को उपलब्ध कराइ जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, मतदान के माध्यम से एजीएम में अपने अधिकार	15 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओं के आधार पर उपलब्ध होगी।
त्रदते, नेएझ, जोनो नगर उ.प्र 20100S.	पंजीकर । श्रीपती स्होस पत्नी रुजुन्त्रीन के नाम पर। अवल संपति /	जवार पात्र) खाता स 1010A1003S3S	का उपयोग करने के लिए पात्र होगा।	स दरय जो 33यी एजीएम ले दौरान प्रश्न पूछना चाहते है, उन्हे 25 सितबर, 2022 लो सुबह 9 बजे
	एंपहि / एंपति एरेपाः पूर्वः छेत्र उजपात, पश्चिम 10 फोट कच्छा इए.स. उहरः पिडपात का घर, दक्षिणः प्तॉट श्री विमोद	कथा 101040S10303 के गिरुड़		(आइएसटी) से 27 सितबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (आइएसटी) तक अपने पजीकृत ईमेल फ्ते से अपना नाम, डीपीआईडी और क्लाइट आईडी नबर / फोलियो नबर और मोबाइल नबर का उल्लेख
			केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के	करते हुए, ईमेल investors@omaxe.com पर या https://www.webex.com/
1. श्री एठिप पतिक पुत्र श्री वंद पाल (कर्तठार) प्रकार में	02.50 वर्ग गत्र अर्थात्र 52.25 वर्ष मोटर के अवासीम भूखंड का इंक्विटेवल बंधक, खारस क्रमांक- 722/1, ग्राम-सेन्नपुर, परगना	पाग सूचना को किंधि : 21,06,2022 करना	रजिस्टर में दिखाई देता है, जैसे कि कट—ऑफ दिनांक यानी 22 सितंबर, 2022 को वोटिंग केंद्र के माध्यम से एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।	downloads.html/ लिक पर क्लिक करके वेवेक्स एप्लिकेशन को डाउनलोड और इस्टॉल करके
274. उपलपुर २२. कांध २७१. गांवपांबाद, पूजा. 201002. 2. श्रीमजे राज्यतो पत्नों श्री चंद्र पाल (बंधककर्ता	इस्वटबर बच्च, छएत प्रमाल 7221, जन तहनुर, ररम छारम, करारील एवं जिला गजिपाबाद, पूर्व से संबधित, मेएडा के	पुरुन का ताव : 03,09/2022. बकामा ठन्नि :		अपना अनुरोध भेजकर खुद को एक स्पीकर के रूप में प्रजीकृत करना होगा। ये सदस्य जिन्होने स्वय को केवल एक स्पीकर के रूप में प्रजीकृत किया है, उन्हें समय की उपलब्धता के आधार पर 33वी
और गरहर) मकान नेवर -274, रुमरापुर -2, कवि गगर,	हजाव रिकॉर्ड में बच्चे नंबर -1, जिल्ह रंबर -4770, पेज नंबर -	रु. ७७९२२१/- (रूपपे सात लाख अइसठ	ई-्वोटिंग या ई-्वोटिंग प्रकिया के बारे में यदि कोई शिकायत है, तो श्री सुधीर परसरामपुरिया, ई-मेल पर	को कपल एक स्थावर के लोग में पंजाकृत किया है, उन्हें समय को उपलब्धतों के अधार पर उउंपा एजीएम के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि बैठक
गजिमाबाद, उ.९, २२०१००२, ३, श्री देवेंद्र कुमार पुत्र श्री	175 ऐ 194. ऐरिफल नंबर- 4471 दिनांक 13.05.2011 के रूप में पंजीकृत किमा। श्रोमती राज्यतों पत्नों श्रों चंद्र पाल के नाम पर।	[11] S. M. SARAH, C. M. M. SCHWARD, M. M. S. M.	निदेशक को संबोधित किया जाना चाहिएः co@mtfl.co.in (संपर्क नेंबर 0141-2373676 पर या	के समय प्रश्नो को ठीक-ठीक और संक्षेप में उठाए ताकि इम उनका उत्तर दे सके। कपनी एजीएम के
याङ्ग्याल (रह (पाटट) (रवारा पकार रवार 1359, गलपाण कॉलीमी, अर्थला, गाविषाबाद, उ.प्र201007	अवकृत किया । अपता राज्यता पत्था जा वद्व पत के गय परा अवत राप्यति / एंपति / एंपति को ऐंपाः पूर्वः राता 15 फोट, पश्चिमः	10 194 1000 10 1. 10 194 oS 100 12 के बिरुड	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर उपलब्ध है।	लिए समय की उपलब्धता के आधार पर यक्ताओं की सख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित
	हाज 4 फोट, उहर: विक्रेज को भूपि, उधिप: रेखपाल का भर	5.54 M	बुक क्लोजर	रखती है।
	एंपहि माप30 वर्ष गढ का इंक्विटेबल बंधक. छाररा क्रमांक 484.		कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014-10	कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) जिनियम, 2015 की भारत 42 के प्रायभानों के अनुसान कपनी के सहरकों का निवलन और जेमन
(कर्नदारम्बधककर्ता) निवासे मकान में, 129, सदरपुर	ग्राम-जालपुर, त्रदरे, जे,बो,गगर में रिशत बच्चे में-1, जिल्द में-	एक्ना को तिथि : 02,0%2022.	और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के नियम 42 (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्कताएं)	विनियम, 2015 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर इस्तातरण पुस्तकेंबद रहेगी।
कालामा, एक्टर-४८, जाजा मगर-201301. 2. श्रीपकी यूनी देतो पत्ने श्री प्रियानेट टाकर (एड. कर्मनर) धेनाणी एक्टर	5073. पृष्ट एडिया - 65 ऐ 86. कपांक - 631 दिनांक 10.01.2013 के रजाय अभिने छों में पंजीकृत प्रियानंद खकुर पूत्र जोयश खकुर	बकामा होति : क्रा 1 00 1057 (क्रामी एक जानन	विनियम, 2015 उपरोक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 23	
र. 129. एटस्पूर कॉलोनो, ऐक्टर-45. जो.जो नगर-	के नाम पर। अबल संपत्ति / संपत्ति / संपति संमाः पूर्व जवव ठाकुर	रिपाएठ हजार एक सी पत्नोर पाउ) छाता	सितंबर, 2022 से बृहस्पतिलवार 29 सितंबर, 2022 (दोनो दिन सम्मिलित) से बंद रहेगे।	गुरुवार, 22 सितबर, 2022 से बुधवार, 28 सितबर, 2022 (दोनो दिन शामिल) वार्षिक आम बैठक और वार्षिक समापन के सबध मे।
201301. 3. श्री पुत्रबुत ठाकुर (गर्रटर) निवासी पकार ज.	व्यक्ति, पश्चिमः १८ फोट बाँझ रास्त्र, उत्तरः प्लंट कृष्ण जो, इधिमः			बोर्ड के आदेशानुसार
 327. एटरपुर कॉलोनो, ऐक्टर-45. जो.जो नगर - 201301. 4. श्री राधेष्ट्रमाम मिश्रा (गर्रटर) निवासी - 129. एटरपुर 		100741012772 রঙ্গা 10274cS10240 কাযিমের	कृते मैगनानीमस ट्रेड एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	ओमेक्स लिमिटेड के लिए
4. ज्ञा तथरमाम मिन्द्रा (माटट) मिन्द्राताः 129. एडटपुर कॉलोनो. ऐक्टर-45. जो.जो. नगर - 201301.		di ra Cô	(पार्वती परसरामपुरिया)	
दिनांकः : 07.09.2022, रुपानः : नोएका	कृते शिवालिक त्माल प	हाइनेंस बैंक हिनमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी	स्थानः जयपुर प्रबंध निदेशक	हस्ता. /– स्थानः नई दिल्ली नवीन जैन
ki ili ili		151 16 16 L	दिनांकः 03.09.2022 डीआईएनः 0.0359065	दिनांकः सितम्बर 06, 2022 (कंपनी सचिव)
www.readwhere.com				

एतद्वारा जनसाधरण को तथा विशेष रूप में कर्नदार एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बन्धक प्रभारित निम्न विवरणि अचल परिसम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभुत ऋगदाता के प्रामिकृत अभिकारी (एओ) डारा ग्रहण किया जा चुका है तथा कर्जदारों/जपानतियों से बकायों क वसुली के लिए परिसम्पत्तियों का अब '' जैसी हैं जहां हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'', ''वहां जो कुछ हैं'' और ''उपचार रहित'' आधार पर विक्रय किया जाएगा

कर्जदार तथा जनानतियौँ के नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की रिश्वति	ंबकाया देवताए	आर्यक्षत मूल्य	हेएमडी उथा भुगतान की अन्तिम तिथि	तिथि एवं
पेसर्स सिंह पार्वल एंड स्टोन्स गारंटरः श्री पहेश सिंह तोपर श्रीपती गीता तोपर	अत्तपदपुरा, ग्राम अच्दुल्लापुर, जिला मेरठ, (यू.पी.) -25001 में स्थित खरारा नं. 947, अताता नं. 1/1, माप 585.27 वर्ग मीटर पर स्थित भूमि तथा भवन का समस्त भाग तथा खसरा नं 947, अताता नं 1/1, माप 29 वर्ग मीटर के बच्चे हुए क्षेत्र के संबंध में भूमि का समस्त भाग		23.07.2017 तक रु. 167 लाख तथा पावी ब्याज एवं लागत	लाख	रु. ८ लाख 06.10.2022 ('गुरुरमद्मिधार')	
पैसार्स विशाल ट्रेडलिंक्स प्रा. लिपिटेड गारंटर श्री विकास बाफना, श्री लक्ष्मीपत बाफना, श्री दिनेश जैन बाफना, श्रीपती राज्यश्री बाफना, देवी व्यापार प्रा. लिपिटेड और देवी निर्पाण प्रा. लिपिटेड	पाप 264.7 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले भवन का पूरा भूतल, प्लॉट नं. 21, ब्लॉक नं. 4, संख्या 4/21, खसरा संख्या 5127/2610 पें, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली -110005 की आबादी पें बस्ती रेघर पें स्थित भवन।	रचनात्मक	18.05.2021 तक रु. 1072 लाख तथा पाबी ब्याज एवं लागत	लाख	रु. 27.70 लाख 06.10.2022 (गुरुख्यमिधार)	

बोली दरतावेज में उल्लिखित नियम एवं शतों का तासयं

*ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 07.10.2022 को 12 बजे अप. से लेकर के 2 बजे अप. तक (बंद होने से पुर्व अंतिम पांच पिनटों में बोली होने की रिथति में स्वतः विस्तार उप-वाक्य के साथ) । *नीलापी ऑनलाइन पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के पाप्यप से निविदा दस्तावेज के आरं के नियमों और शतों के अनुसार और उसमें निर्मारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। * निविदा दस्तावेज https://sarfæsi.auctiontiger.ne से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक बोली निविदा दस्तावेज में वर्णित नियमों और शतों के अनुसार ईएमडी जमा करके समर्थित होना चाहिए। सफत बोलीदाता को बिक्री पुल्य का 25% जपा करना होगा (बिक्री की पुष्टि के समय जपा की गई ईएमडी की राशि घटाकर)। * बिक्री पुल्य की शेष राशि क भुगतान बिक्री की पृष्टि के 15 दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवभि जैसा कि एओ डारा सहमति दी जाए, किया जाना है। निर्भारित अवभि के भीतर शेंध राशि जपा करने में विफलता के पामले में, जमा राशि को ईएमडी सरित जब्त कर लिया जाएगा। * बोलियां रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख पात्र के गुणकों में बढ़ाई जा सकती हैं, * यहां ऊपर निर्धारित नीलापी किसी भी कारण से विफल होने की स्थिति में, रेयर एआरसी को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियप, 2002 और सरफेसी अभिनियप, 2002 के नियप ७(5) के प्रावधानों के तहत किसी भी तरीके से प्रतिभूत संपत्ति को बेचने का अभिकार है *नीलापी के किसी भी चरण में, प्राभिकृत अभिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना कोई पूर्व सूचना दिए, प्रस्तावित बोली क रद्य/नरस्त/स्थगित/आस्थगित/समाप्त कर सकता है। *यूजर आईडी तथा पासवर्ड से संबंधित प्रश्नों के लिए रेयर एआरसी सेवा प्रदाताः ई-प्रोक्योरपें टेक्नोलॉजीज लिपिटेंड, (ऑक्शन टाइगर), दूरभाष: 079-68136878, पो.: 9978591888, ईपेल: ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क किया ज सकता है। *किसी भी प्रश्न के लिए, बोलीदाता कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में श्री राजेश स्वरूप, एश्रो, रेयर एश्रारसी, मोबाइल नंबर: 8153834053 या 079- 40092295/97 पर, ईपेल: rajeshswarup@rarearc.com तथा info@rarearc.com, चैबसाइट: www.rarearc.com से संपर्क कर सकता है।

Date: 06/09/2022 Place: Faridabad

> OMAXE Turning dreams into realit ओपेक्स लिपिटेड पंजीकृत कार्यालय दुकान नंबर 19-बी पहली मंजिल ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल सोडना रोड गुरूप्राम हरियाणा-122001 कार्पोरेट कार्यालय ओफेक्स हात्रस 7 एलएससी कालकाजी नई दिल्ली-110019 ररगाम 011-41898880-85 फैक्स 011-41898883 इपेल secretanal_1@omaxe.com, वेवसाइट www.omaxe.com, (CIN: L74899HR1989PLC051918)

33वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर की सुचना,

कपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और उसके तझ्त बनाए गए नियमों और सेबी (सुधीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 ('लिरिटग विनियम') के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मजालय द्वारा जारी प्रासगिक परिपत्र के साथ पठित ('एमसीए सर्कुलर') और भारतीय प्रतिभत्ति और यिनिमय बोर्ड ('सेब) सर्वलर') दारा जारी परिपत्र, एतदयारा सचित किया जाता है कि ओमेक्स लिमिटेड ('कपनी') के सदस्यों की 33यी यार्षिक आम कैठक ('एजीएम') क्रुधयार, 28 सितवर 2022 को दोपहर 12 00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ('वीसी')/'अन्य ऑडियो वीडियो मीन्स ('ओएयीएम') सुविधा के मध्यम से एजीएम की सुचना में निधारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए 33वी वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिग (वीसी) के माध्यम से किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

एमसीए के प्रायधानों के अनुपालन में इसके परिपन्न संख्या 14 / 2020 दिनाक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न सख्या 17 / 2020 दिनाक अप्रैल 13, 2020, परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनाक 5 मई, 2020, परिपन सख्य। 02/2021 दिनाक 13 जनवरी, 2021 और परिपत्र सख्या 02/2022 दिनाक 5 मई, 2022 और सेबी परिपन्न दिनाक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022, एजीएम की सूचना, 3 मार्च, 2021 को समाज हुए वितीय वर्ष के लिए वितीय विवरण (स्टैडअलोन और समेकित) के साथ जिसमे अनुसुचिया और निदेशक मडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षको, कॉर्पोरेट पर रिपोर्ट शासन, जिसमे ई-योटिग और एजीएम में भाग लेने के निर्देश शामिल है, केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल आईडी उपरोक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्रों के अनुसार कपनी/डिपॉजिटरी/ आरटीए के पास उपलब्ध है। यार्थिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सुचना कपनी की वेबसाइट www.omaxe.com और स्टॉक एक्सचेज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इडिया लिमिटेड www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमश और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइयेट लिमिटेड की वेवसाइट https://instameet.linkintime.co.in पर पर भी उपलब्ध होगी

कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कपनी (प्रबधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के अनुसार, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तायित प्रस्तायो पर कपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक द्वारा योट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में हर्षित है। सदस्यों के योटिंग अधिकार सदस्यों द्वारा धास्ति इक्विटी रोयरों की संख्या के अनुसार कट-ऑफ / रिकॉर्ड तिथि, जो बुधवार, 21 सितबर, 2022 है, के अनुसा होगे। एक ध्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपाजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामिये ले रजिस्टर में दर्ज लिया गया है लो लेवज लट-ऑफ लिथि ले अनसार रिमोट ई-योटिंग ली सरिध

Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS

32

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN- L21015UP1980PLC005138) D REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT- MAWANA ROAD. MAWANA, UP-250 401 PHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com,

website: www.sangalpapers.com

INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 42" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 42" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sangal Papers Limited will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 01:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 06, 2022.

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the 42" AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.sangalpapers.com). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made there under, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 42[™] AGM. The Members are further informed that the cutoff date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Wednesday, September 21, 2022. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as evoting during AGM.

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Sunday, September 25, 2022 at 9:00 a.m. and will remain open upto Tuesday, September 27, 2021 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM

The Company has appointed Sh. Dinesh Kumar Gupta (Membership No. F5226, C.P. No. 3599), Practising Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM

and e-voting during AGM are contained in the Notice of 42" AGM. The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Arpit Jain, Company Secretary, e-mail address: sangalinvestors1980@gmail.com or may be sent at the registered

Form No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Befare the Central Gaverament Regional Director, Northern Region

B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003. In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (S) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter of LWM SERVICES PRIVATE LIMITED (CIN-U65100DL2006PTC149194) (Formerly known as LWIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED) Registered Office : D-502, Vidisha Agartment, Plot No.79, Patgarganj New Delhi-110092 IN

.....Applicant

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company interms of the Special Resolution gassed at the Extra-ordinary General Meeting held on Saturday, 66* day of August, 2022 to enable the Company to change its Registered Office Rom "NATIONAL CAPITAL TERRITORY (NCT) of DELHI" to the "STATE OF UTTAR

Any gession whose interest is likely to be affected by the groposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MICA -21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form arcause to be delivered arsend by registered gast of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of gualication of this active with a copy to the applicant company at its registered office "D-502, Vidisha Apartment, Plot No.79,

Patparganj/New Delhi-110092 IN" For and on behalf of For LWM SERVICES PRIVATE LIMITED (Formerly known as LWM Solutions Private Limited) Manoj Shrivastava Date :September 06, 2022 Director DIN 00126438 Place : New Delhi

Form No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Before the Central Government Regional Director, Northern Region B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003. In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub cule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorgoration) Rules, 2014 AND

In the matter of MANSHRI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (CIN-U74110DL2006PTC149197)

Registered Office: D-S02, Vidisha Agartment, Plot No.79, Patgarganj New Delhi-110092 IN

.....Applican

Director

DIN 00126438

885CM

Notice is hereby give a to the General Public that the Company programs to make an application to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution gassed at the Extra-ordinary General Meeting held on Saturday, 66" day of August, 2022 to enable the Company to change its Registered Office from "NATIONAL CAPITAL TERRITORY (NCT) of DELHI" to the "STATE OF UTTAR PRADESH."

Any gers on whose interest is like by to be affected by the grogosed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA -21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/ her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Composate Alifairs, B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Dethi-110003, within fourteen days from the date of gualication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office "D-502, Vidisha Apartment, Plot No.79, Patparganj New Delhi-110092 IN"

For and on behalf of For MANSHRI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Sd/-Manoj Shrivastava



1. Notice is hereby given that the 48" Annual General Meeting (AGM) of

the Members of National Fertilizers Limited ('Company') will be held on Thursday, the 29" day of September, 2022 at 02.30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM" without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the notice of the AGM in compliance with General Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020, circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of 48" AGM along with the Annual Report for the year 2021-22 has been sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar and transfer Agent / Depositories. Notice of AGM and Annual Report 2021-22 are available at the website of the Company viz. www.nationalfertilizers.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz. www.evoting.nsdl.com. Member may please note that in view of Circulars/ CoVID-19 pandemic, no hard copies of the Notice of AGM and Annual Report 2021-22 have been sent. However, hard copy of annual report will be provided to those shareholders who will specifically request for the same.

2. Book Closure

Notice is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23.09.2022 to 29.09.2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

3. Voting through electronic mode (Remote e-voting and e-voting at the AGM)

(a) In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable Circulars, the Company is pleased to provide e-voting (Remote e-voting and e-voting at the AGM) facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 29.08.2022 through the e-voting services provided by NSDL. The cut-off date for determining the eligibility to vote through Remote e-voting and e-voting at the AGM is 22.09.2022

SAMRAT FORGINGS LIMITED

CIN: L28910PB1981PLC056444 Regd. Office: Village & P.O. Ghollu Majra, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali, Punjab - 140506 Phone: 091-9257240444, E-mail: info@samratforgings.com Website: www.samratforgings.com

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 30th day of September, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (DAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM. As per the General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 21/2021 dated 14th December, 2021 and 02/2022 dated 5th May, 2022 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the Companies are allowed to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. Hence the 41st AGM of the Company is being held through VC / OAVM. Members attending the 41st AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In accordance with the Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent on 6th September, 2022, to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants/RTA and physical copy to the shareholders who have requested for the same. The Annual Report including Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.samratforgings.com/wp-content/uploads/2022/09/Annual-Report-2021-22.pdf, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of CDSL www.evotingindia.com.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and providing to its Members the facility to exercise their right to vote at 41st AGM by electronic means (remote e-voting). The remote e-voting facility shall commence on 27th September, 2022 (9:00 AM) and shall end on 29th September, 2022 (5:00 PM). The members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting through electronic means during the AGM is 23rd September, 2022. Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2022 only shall be entitled to vote, either through remote e-voting or through e-voting during the AGM. For details relating to remote e-voting and e-voting during the AGM and instructions for joining the AGM through VC / DAVM, please refer to the Notes forming part of the Notice of AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e. 23rd September, 2022, may obtain User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at info@masserv.com. In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

Members holding shares in physical form and have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending copy of the following documents by e-mail to Company's Registrar and Share Transfer Agent Mas Services Limited at info@masserv.com or to the Company at sandeepsharma@samratforgings.com:

a). A request letter in the prescribed Form ISR-1 (prescribed vide SEBI circular dated 03.11.2021) mentioned the relevant details such as name, folio number and complete address;

b). Scanned copy of Share Certificate (front and back);

c). Self attested scanned copy of PAN card.

Members holding shares in dematerialized form are requested to register their email addresses with their Depository Participant (DP).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from 26th September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Board has not recommended any dividend for the Financial Year 2021-22.

address of the company as mentioned above.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through email communication to RTA at investor@masserv.com_with a copy marked to the Company at sangalinvestors1980@gmail.com along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID& Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction.

Since the 42rd AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 42' AGM. For Sangal Papers Limited

Ľ		for Sungar rupers Enniced
l	Place : Mawana	Sd/-
L		Arpit Jain
l	Date : 06 th September, 2022	M.No. A48332
ļ	Company	Secretary & Compliance Officer

SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED Regd. Off :PawanPuri, Muradnagar, Distt. Ghaziabad-201206 Uttar Pradesh (INDIA) CIN: L17100UP2016PLC084473 Email: spaceincubatrics@gmail.com, Website: www.spaceincubatrics.com, Phone: 01232-261288

Notice of AGM:

NOTICE is hereby given that the 6"Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED will be held on Friday, September 30, 2022 at 12:30 P.M. at PawanPuri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (UP), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM dated August 30th, 2022. The Notice of the AGM along with the Explanatory Statement thereto and the Annual Report for the year ended March 31, 2022 has been separately sent in electronic mode to all those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of AGM have been sent to all other Members who have not registered their email addresses, at their registered addresses, by the permitted mode. The Annual Report and a copy of the Notice of AGM are also available on the website of the Company at www.spaceincubatrics.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com.

E-Voting:

The Company has entered into an arrangement with Central Depository Securities Limited ('CDSL'') for facilitating remote e-voting services.

In this regard, Members may note that:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and regulation 44 of SEBI (LODR) Reg. 2015, the business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The company is pleased to provide remote E-voting facility to all its Shareholders.
- (ii) the cut-off date for the purpose of determining shareholders for voting through Remote E-voting and at the venue of AGM is Friday, September 23, 2022 (Cut Off Date). Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the Cut Off Date may either cast their votes, electronically through electronic voting system of Central Depositories Services Limited (CDSL) i.e. https://www.evotingindia.com from a place other than the venue of AGM ("Remote E-voting") or at venue of the AGM through Ballot Paper;
- (iii) the Remote E-voting shall commence on September 27, 2022 at 10:00 AM (Tuesday) and end on September 29, 2022 at 5:00 PM (Thursday). The Remote E-voting facility shall be disabled by CDSL after September 29, 2022 at 5:00 PM (Thursday) and no voting shall be allowed beyond the said date and time and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- any person who has acquired shares and becomes members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut Off date i.e. September 23, 2022 (Friday) may obtain their user ID and password for e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or CDSL by connecting to the CDSL or RTA at the following contacts: Tel. No.:022-23058738 and 22-23058542-43. E-mail ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com. (v) the facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of AGM:

Date : September 06, 2022 Place : New Delhi

Him Teknoforge Limited CIN: L29130HP1971PLC000904 Registered Office : Village Billanwali, Baddi , Distt: Solan (H.P)-173205 Telephone No.:+91(1795) 245466 Fax No.:+91(1795)245467 E-mail: cs@gagl.net , Website: www.gagl.net

NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 51" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 29" September, 2022 at the Registered Office of the Company at 11:30 am at Village Billanwali, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh - 173205.

Electronic copy of the Notice of the 51" Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 have been sent to all the members whose email id is registered with the Company/ Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address. The notice of 51" AGM for the financial year 2021-22 is available on the Company's website www.gagl.net and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of 22" September, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business (es) as set out in Notice of 51" AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The members are informed that:

Place: Baddi

Date: 06/09/2022

(a) the electronic transmission/ physical dispatch of Annual Report has been completed. (b) the voting through electronic means shall commence on 26° September, 2022 at 9:00 am and end on 28" September, 2022 at 5:00 pm.

(c) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on 28" September, 2022.(d) in case any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 22" September, 2022 will be eligible for voting and in case having any queries relating to voting by electronic means, may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder the Register of Members and Shares Transfer Book of the Company will remain closed from 23" September, 2022 to 29" September, 2022 (Both days inclusive).

For Him Teknoforge Limited -Sd/-Abhishek Misra **Company Secretary** Manager Secretarial and Legal

ADISHAKTI LOHA AND ISPAT LIMITED CIN: L51909DL2015PLC275150

Regd Off: Plot3, Shop 325, DDA C.Cntr, Aggarwal Plaza, Sec-14, Rohini, New Delhi-110085 | Phone: 011-27860681 Email: info@adishaktiloha.com | Website: adishaktiloha.com

NOTICE OF AGM

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting of the members of Adishakti Loha and Ispat Limited will be held on Friday, September 30, 2022, at 11: 15 a:m. at "Metro Grill" 415, 4th Floor, Citi Centre Mall, Sector 10, Rohini, Delhi-110085 ("the Meeting")

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier, and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories / Company.

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice is available on the website of the Company (www.adishaktiloha.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting...

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) as the Agency to provide e-voting facility The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The formal of communication for e-voting is available on the website of the Company; www.adishaktiloha.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, September 27, 2022 from 9:00 a.m. and end on Thursday September 29, 2022 at 5:00 p.m. The remote avoting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person, whose name appears In the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Friday, September 23, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. If the members already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

(b) Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

(c) The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting at the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM. Remote e-voting shall commence at 9.00 A.M. on Monday, 26" September, 2022 and end at 5:00 P.M. on Wednesday, 28" September, 2022. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Wednesday, 28" September, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

(d) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC / OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again. Members, who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC / OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

(e) A person whose name is recorded in the Register of the Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 22.09.2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

(f) Any person becoming the Member of the Company after the despatch of Notice of AGM, but on or before the cut-off date, may obtain login ID & password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor@masserv.com. However, if a person is individual shareholder and holding shares in demat mode, he/she can generate password as given in e-voting instruction of notice.

4. Scrutinizer

Shri Pramod Kothari, Proprietor of M/s Pramod Kothari & Co., Company Secretaries (CP: 11532) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting at the AGM process in a fair and transparent manner.

5. Proxy

In accordance with the above mentioned Circulars, the facility of appointment of proxy by members will not be available for the AGM. However, in pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting or for participation and voting in the meeting held through VC or OAVM.

6. Contact details

Members are requested to read the instructions pertaining to Remote e-voting, e-voting at the AGM and Joining of AGM through VC as printed in the AGM notice carefully. In case of any gueries/concern/grievance, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote e-voting user manual for Members available at the Download Section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL through e-mail at evoting@nsdl.co.in amitv@nsdl.co.in or on Toll Free No:1800-1020-990/1800-224-430 or Mr. Deepanshu Rastogi, Asst. Manager, M/s. MAS Service Limited through email at investor@masserv.com or on Telephone No: 011 26387281/82/83.

7. Manner of registering / updating e-mail address:

(a) In case shares are held in physical mode please provide Form ISR-1 with Folio No., Name of shareholder, scanned copy of any one share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card). Mobile number and email id (should be mentioned in form ISR-1) AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@masserv.com or investor@nfl.co.in. Please also send original copy of ISR-1 with copy of PAN/AADHAR to RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi-110020).

For Samrat Forgings Limited
Sd/- (Sandeep Kumar)
Company Secretary



Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting (AGM') of the Members of Omaxe Limited ("Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 28, 2022 at 12:00 Noon through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Vishal Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at the common venue to transact the Ordinary and Special Business as stated in the Notice convening the said AGM.

In compliance with the provisions of MCA vide its Circular No.14/2020 dated April 8. 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5. 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, the Notice of the AGM together with the Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the financial year ended on March 31, 2021 including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors Report on Corporate Governance and the instructions for e-voting & participation in the AGM have been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA Circulars & SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on September 06, 2022. The Notice of the 33" AGM along with the Annual Report for the FY 2021-22 are also available on the Company's website www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at URL:https://instameet.linkintime.co.in

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on proposed resolutions to be passed at AGM. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off/record date which is Wednesday, September 21, 2022. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and to participate in the meeting

The e-voting period commences on Sunday, September 25, 2022 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, September 27, 2022 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again through e-voting facility during the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, September 21, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in or contact on 022-49186175.

For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for evoting which forms part of the Notice of 33" Annual General Meeting before exercising your voting right. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://instameet.linkintime.co.in under the Help & FAQ's Section or you can contact on 022-49186175 or at designated e-mail ID instameet@linkintime.co.in, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at investors@omaxe.com Members who have not registered their email ID with the depository participants, are requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at delhi@linkintime.co.in or investors@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those members who have registered their e-mail address, mobile number, postal address, and bank account details are requested to validate/update their registered details by contacting their Depository Participant in case share held in electronic mode or by contacting our RTA Link Intime India Private Limited.

- (vi) a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to cast his vote again in the AGM;
- (vii) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut Off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting or voting at venue of the AGM through Ballot Paper.
 - Notice of AGM of the company can be downloaded from the link: https://www.spaceincubatrics.com/wp-content/uploads/2022/ 09/NOTICE 6TH-AGM SPACE.pdf

In case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members" available under the 'Downloads' section of www.evotingindia.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800225533 or contact Mr. Anand Tirodkar, Mr. Ankit Bandivadekar, CDSL, Trade World, 'Phiroze Jeejeebhoy Towers, 17th Floor, Dalal Street, Mumbai 400001, at the designated e-mail ids: helpdesk.evoting@cdslindia.com or telephone no. Tel: (022) 23058615, (022-23058634) Fax: (022) 23002043.

In Compliance of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and as a part of the Green Initiative, the Company encourages the Members to provide / update their e-mail address to enable the servicing of notice(s)/ documents(s)/ Annual Report(s) electronically. The request for updation of records for members holding shares in physical mode should be sent to the Company or RTA and to the Depository Participant in case of members holding shares in dematerialized mode. The AGM will be held at the said venue by strictly adhering to the Social Distancing Norms and other Safety Protocols including Face Masks, Hand Sanitization etc. as per the latest guidelines / advisories / SOPs issued by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India and the State Governments amid COVID 19 pandemic

> For SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED Sd/-(Khushbu Singhal)

> > Company Secretary & Compliance Officer

M. No.: A25992

Date : September 06, 2022 Place : Muradnagar

financialexp.epa r.in

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not yet registered their email addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to Bigshare Services Private Limited ('RTA') for members holding shares in physical form.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Friday, September 23, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting.

Date: 06/09/2022

Place: New Delhi

For, ADISHAKTI LOHA AND ISPAT LIMITED Sd/-Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265 (b) Members holding shares in dematerialised mode and have not registered/updated their e-mail address, register/update it with the Depository Participant(s) with whom their demat account is maintained.

8. Instruction for Corporate Members

Corporate Members intending to attend the AGM through their authorized representatives are requested to send a certified copy of Board Resolution authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through its registered email address to ppdkothari71@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

9. Go Green initiative

To support green initiative, Members who have not registered their email address so far or who want to update their e-mail address are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or with M/s. MAS Services Limited/ Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

For National Fertilizers Limited, Place: New Delhi 高品牌 Date : 07.09.2022

@NFL_Kisan () @nationalfertilizers in National Fertilizers Limited

Members may participate in the AGM through VC/ OAVM at https:// instameet. linkintime.co.in/ by using their remote e-voting login credentials and selecting the Event' for Company's AGM. Members who do not have the User ID and Password for evoting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice.

Members, who need technical assistance before or during the AGM, can contact RTA at https://instameet.linkintime.co.in.

Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the AGM and will be available for Members on first come first served basis. Members, who would like to ask questions during the 33" AGM need to register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number, on the email addresses investors@omaxe.com or by downloading and installing the Webex application by clicking on the link https://www.webex.com/downloads.html/. from September 25, 2022 at 9.00 am (IST) to September 27, 2022 at 5.00 pm (IST). Those Members who have registered themselves as a speaker only shall be allowed to ask questions during the 33" AGM, depending upon the availability of time. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) in connection with Annual General Meeting and annual closing.

> By order of the Board For Omaxe Limited

Place: New Delhi Date: September 06, 2022

Sd/-Navin Jain (Company Secretary)

New Delhi

(Ashok Jha)

Company Secretary







